



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा

दशम् सत्र

अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 3, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" एवं राज्यगीत "अरपा पड़री के धार" का गायन किया गया ।

2. राज्यपाल का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार माननीय राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

माननीय राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

माननीय राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण दिया।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

माननीय राज्यपाल महोदया ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसरण में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

3. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 25 एवं 26 फरवरी, 2021 की तिथियाँ निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई ।

पूर्वाहन 11.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 4, शक संवत् 1942) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा